



**THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India**
भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
Statutory body under an Act of Parliament
(Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

प्रेस विज्ञप्ति

ब्यूरो के प्रमुख

10 सितंबर, 2020

**सीएस आशीष गर्ग वर्ष 2021 के लिए कॉर्पोरेट सेक्रेटरी इंटरनेशनल एसोसिएशन
(CSIA) के अध्यक्ष बने**



इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस आशीष गर्ग को सर्वसम्मति से वर्ष 2021 के लिए कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज इंटरनेशनल एसोसिएशन (CSIA) की परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।

कॉर्पोरेट सेक्रेटरी इंटरनेशनल एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 2010 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में एक एसोसिएशन के रूप में की गई थी जिसे बाद में 2017 में हांगकांग में गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पुनर्गठित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कॉर्पोरेट सेक्रेटरी और गवर्नेंस प्रोफेशनल्स के पेशे को सुविधा देने, विकसित करने और बढ़ावा देने और उन देशों में ऐसे संगठनों के निर्माण में सहायता करना है, जहां यह मौजूद नहीं है।

प्रत्येक राष्ट्रीय सदस्य संगठन के सदस्यों और प्रतिनिधियों की एक परिषद द्वारा शासित इस संगठन के आज चौदह से अधिक सदस्य देश हैं और दुनिया भर में 100000 से अधिक गवर्नेस पेशेवर इस संगठन से जुड़े हुए हैं।

देश में गवर्नेस स्ट्रक्चर को मजबूत करने और ग्लोबल कॉर्पोरेट गवर्नेस मैप में एक समावेशी राष्ट्र के रूप में अपनी वृद्धि के साथ, भारत पहले ही ग्लोबल कॉर्पोरेट लीडर्स में से एक बनने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अग्रसर है। सीएसआईए के अध्यक्ष के रूप में सीएस आशीष गर्ग की नियुक्ति इसके दायरे को बढ़ाएगी।

ICSI के फेलो मेंबर और विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से अर्थशास्त्र और वाणिज्य में स्नातकोत्तर एवं लॉ ग्रेजुएट (L.LB) सीएस आशीष गर्ग के पास कॉर्पोरेट कानूनों, संगठनात्मक पुनर्गठन और कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कानूनी परामर्श में विशेषज्ञता में लगभग 19 वर्षों का अनुभव है। उनके अनुभव, नेतृत्व और उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण के तहत, CSIA का अपने उद्देश्य को पूरा करना निश्चित है।

सीएस आशीष गर्ग वर्तमान में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं एवं इंदौर में एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं।

प्रीति कौशिक बनर्जी

निदेशक

कॉर्पोरेट संचार और अंतर्राष्ट्रीय मामले

दूरभाष: 011-4534 1022

ई-मेल: preeti.banerjee@icsi.edu